

# बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव ने कहा बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही भाजपा

लखनऊ, 17 अक्टूबर (भाषा)।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहराइच में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा को जानबूझकर कराई गई घटना करार देते हुए गुरुवार को कहा कि ‘डिवाइड एंड रूल’ के आधार पर काम कर रही राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को इस बात पर दुख जाहिर करना चाहिए कि आखिर यह घटना क्यों हुई। यादव ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में बहराइच हिंसा के पांच आरोपियों को पुलिस से हुई कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का ये तौर-तरीका बनाया गया है और जब कभी जांच होगी तो बहुत से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तथा उन्हें जेल जाना पड़ेगा।



सपा नेता ने बहराइच हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, ‘पड़ोसी जिले का मामला है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि यह घटना हुई नहीं है बल्कि कराई गई है।’ यादव ने कहा, ‘मुझे तो यहां तक सुनने में आया है कि जिस व्यक्ति ने बहराइच में जुलूस का पहला वीडियो वायरल किया उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। भाजपा के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर भाजपा के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या उसे झूठे मुकदमे में जेल

भेजवा रहे हैं तो समझ लीजिए वह क्या छिपा रहे हैं? कुछ तो छिपा रहे हैं ना?’ बहराइच जिले की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा पूजा पर विर्सनं जुलूस के दौरान एक प्रार्थना स्थल के बाहर कथित तौर पर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा (22) की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी हुई।

## बंगाल बलात्कार-हत्या : पुलिस अधिकारी ने मौके का दौरा किया

कोलकाता, 17 अक्टूबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के सहायक पुलिस महानिदेशक (एडीजी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में उस घटनास्थल का दौरा किया, जहां ह्वाबलाकार और हत्याह्म की शिकार हुई एक महिला का शव मिला था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्याणी स्थित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (जेएनएम) अस्पताल ले जाया गया है। महिला का शव बुधवार को कृष्णानगर कस्बे में एक खेत में पड़ा मिला था। उसका चेहरा तेजाब से जला हुआ था और कपड़े अस्त-व्यस्त थे। मृतक महिला के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति

को गिरफ्तार किया गया है, जिसे उसका प्रेमी बताया जा रहा है। आरोप है कि महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अधिकारी ने बताया कि एडीजी (दक्षिण बंगाल) सुप्रतिम सरकार ने आश्रमपाड़ा इलाके में उस स्थान का दौरा किया जहां महिला का शव मिला था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मृतका के दो करीबी दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया। माता-पिता ने आरोप लगाया कि सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद सड़त नष्ट करने के लिए उनकी बेटी के चेहरे को तेजाब से जला दिया गया।

## ‘भाजपा दंगे कराने, फूट डालने और राज करने की नीति पर काम कर रही है’

लखनऊ, 17 अक्टूबर (भाषा)।

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटना को लेकर गुरुवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ‘दंगे कराने, फूट डालने और राज करने’ की नीति पर काम कर रही है। सिंह ने कहा, ‘जब भी भाजपा चुनावी राजनीति में कमजोर पड़ती है तो वह

दंगे कराती है। यहां भाजपा दंगे कराने, फूट डालने और राज करने की नीति पर चल रही है।’ उन्होंने कहा, ‘यह उत्तर प्रदेश में (लोकसभा चुनावों में) करारी हार के बाद उपचुनाव से पहले भाजपा की तैयारी मात्र है। मुझे लगता है कि इस राज्य के लोग और इस राज्य के युवा यह महसूस कर रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।’ बहराइच के महाराजगंज में रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विर्सनं जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में 22 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई।

## होमगार्ड बर्खास्त

कोलकाता, 17 अक्टूबर (जनसत्ता)।

कोलकाता के एक अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या का शिकार हुई इंटर्न के पक्ष में गाना पोस्ट करने के आरोप में एक होमगार्ड को बर्खास्त किए जाने का आरोप है। बैकपुर पुलिस कमिश्नरेट में कार्यरत होम गार्ड काशीनाथ पांडा ने उक्त आरोप लगाया है। बीते पांच साल से यहां कार्यरत होम गार्ड ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर मृत डाक्टर के पक्ष में गीत पोस्ट करने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।

**पंजाब नैशनल बैंक**  **punjab national bank**  
...the name you can BANK upon !

**शेयर विभाग, बोर्ड और समन्वय प्रभाग**  
**प्लॉट संख्या-4, द्वारका सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075**  
**ई-मेल आईडी: hosd@pnb.co.in, दूरभाष: 011-28044857**

**सार्वजनिक सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बैंक का शेयर प्रमाण पत्र खोने/गुम/चोरी होने के रूप में रिपोर्ट किया गया है और इसके पंजीकृत धारकों/दायेदारों ने बुलिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया है:

क्र. सं.	शेयरधारक/सं. दायेदारों का नाम	फोलियो संख्या	प्रमाण-पत्र संख्या	शेयरों की विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
1.	सुरेंद्र सिंह अजीत सिंह (मृतक) सुदेश रानी (दायेदार)	0096219	6238	5220991-5221490	500
2.	अरुणा सैनी	0053680	3643	3029001-3029500	500
3.	रेखा सूर अमर नाथ सूर (मृतक) (संयुक्त-1)	0019672	1205	933501-935000	1500

किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा/उपरोक्त उल्लिखित शेयरधारकों/दायेदारों के पक्ष में बुलिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे/उन्हें इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि इस सूचना का प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जाता है तो बुलिकेट शेयर प्रमाण पत्र/पुष्टिकरण पत्र जारी किए जाएंगे। सामान्य जन को उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से सावधान किया जाता है।

कुते पंजाब नैशनल बैंक  
(एकता पसरीचा)  
कंपनी सचिव  
दिनांक : 17.10.2024  
स्थान : नई दिल्ली

# तृणमूल नेता कुंतल घोष को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की सलाह दी सुप्रीम कोर्ट ने

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के नेता कुंतल घोष को पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कह दिया। घोष ने दूसरे जज के समक्ष पर्याप्त सुनवाई होने के बावजूद नए ट्रायल जज द्वारा उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने याचिका का निपटारा किया और उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की अनुमति दे दी। पीठ ने हाई कोर्ट को मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश भी दिया और कहा कि अधिकतम चार हफ्ते के भीतर निपटारा कर दिया जाए। पीठ ने घोष के वकील से कहा कि हाई कोर्ट जाएं। हम उनसे शीघ्र सुनवाई करने के लिए कहेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को कोलकाता की एक विशेष



अदालत को घोष की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, आठ अक्टूबर को निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। घोष को पश्चिम बंगाल नौकरी भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य भर के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अवैध भर्तियां की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने मई में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 की भर्ती

सुप्रीम पीठ ने हाई कोर्ट को मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश भी दिया और कहा कि अधिकतम चार हफ्ते के भीतर निपटारा कर दिया जाए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को कोलकाता की एक विशेष अदालत को घोष की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया था।

प्रक्रिया के तहत प्रदान की गई करीब 24,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया था। जिसकी जांच ईडी कर रही है। 2016 में 24,000 नौकरी रिक्रिया के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। हाई कोर्ट के समक्ष यह आरोप लगाया गया था कि अधिकांश उम्मीदवारों को ओएमआर शीट का गलत मूल्यांकन करने के बाद नौकरी दी गई थी।पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा सहित कई लोग इस मामले में कथित संलिप्तता के कारण जेल में हैं।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES OF VISHAL MEGA MART LIMITED ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II AND II-A OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

### PUBLIC ANNOUNCEMENT



(Please scan this QR code to view the UDRHP-I)



## VISHAL MEGA MART LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Rishanth Wholesale Trading Private Limited' at Gurugram, Haryana as a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of Incorporation dated March 26, 2018, issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at New Delhi ("RoC"). Subsequently, the name 'Rishanth Wholesale Trading Private Limited' was changed to 'Vishal Mega Mart Private Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on May 28, 2020. Subsequently, our Company was converted to a public limited company and the name of our Company changed to 'Vishal Mega Mart Limited' pursuant to a Shareholders' resolution dated April 26, 2024 and a fresh certificate of incorporation dated May 10, 2024 was issued by the RoC. For further details on the changes in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 161 of the Updated Draft Red Herring Prospectus - I dated October 17, 2024 ("UDRHP-I").

Registered and Corporate Office: Plot No. 184, Fifth Floor, Platinum Tower, Udyog Vihar Phase-1, Gurugram - 122016, Haryana, India; Tel: +91 124- 4980000; Website: www.aboutvishal.com; Contact Person: Rahul Luthra, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: secretarial@vishalwholesale.co.in; Corporate Identity Number: U51909HR2018PLC073282

### SAMAYAT SERVICES LLP AND KEDAARA CAPITAL FUND II LLP ARE THE PROMOTERS OF OUR COMPANY

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF VISHAL MEGA MART LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹80,000 MILLION (THE "OFFER"), THROUGH AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹80,000 MILLION BY SAMAYAT SERVICES LLP ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, THE "OFFERED SHARES")

THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SHALL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND SUBJECT TO APPLICABLE LAW, WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF FINANCIAL EXPRESS, AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND ALL EDITIONS OF JANSATTA, A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION (HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF DELHI NCR, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") ("QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the Book Running Lead Managers may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to all QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. One-third of the Non-Institutional Portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹200,000 and up to ₹1,000,000 and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹1.00 million provided that under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Portion may be allocated to Non-Institutional Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 326 of the UDRHP-I. The UDRHP-I has been filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the Stock Exchanges under Chapter IIA of the SEBI ICDR Regulations.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 59C(9) and 59C(10) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the UDRHP-I with SEBI and the Stock Exchanges on October 17, 2024. Pursuant to Regulation 59C(9) and 59C(10) of the SEBI ICDR Regulations, the UDRHP-I filed with SEBI and the Stock Exchanges has been made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.aboutvishal.com and on the website of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, ICICI Securities Limited, Intensive Fiscal Services Private Limited, Jefferies India Private Limited, J.P. Morgan India Private Limited and Morgan Stanley India Company Private Limited at https://investmentbank.kotak.com, www.icicisecurities.com, www.intensivesfiscal.com, www.jefferies.com, https://indiaipo.jpmorgan.com/ and www.morganstanley.com/india, respectively. Our Company hereby invites the public to give their comments on the UDRHP-I filed with SEBI and the Stock Exchanges, with respect to disclosures made in the UDRHP-I. The members of the public are requested to send a copy of the comments to SEBI, the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs on or before 5.00 p.m. on the 21<sup>st</sup> day from the aforesaid date of filing of the UDRHP-I with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the UDRHP-I. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 22 of the UDRHP-I.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the UDRHP-I may only be taken after the Red Herring Prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

For details of the share capital and capital structure, the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed by them of our Company, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 66 of the UDRHP-I. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "History and Certain Corporate Matters – Brief History of our Company" on page 161 of the UDRHP-I.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS					
<b>Kotak Mahindra Capital Company Limited</b> 1 <sup>st</sup> Floor, 27 BKC, Plot No. C-27G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4336 0000 E-mail: vmm.ipo@kotak.com Investor Grievance E-mail: kmcrcdressal@kotak.com Website: https://investmentbank.kotak.com Contact Person: Ganesh Rame SEBI Registration Number: INM000008704	<b>ICICI Securities Limited</b> ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100 E-mail: vmm.ipo@icicisecurities.com Investor Grievance E-mail: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Contact Person: Ashik Joisar / Sumit Singh SEBI Registration Number: INM000011719	<b>Intensive Fiscal Services Private Limited</b> 914, 9 <sup>th</sup> Floor, Raheja Chambers, Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, India Tel: +91 22 2287 0443 E-mail: vishal.ipo@intensivesfiscal.com Investor Grievance E-mail: grievance.lb@intensivesfiscal.com Website: www.intensivesfiscal.com Contact Person: Harish Khajanchi / Anand Rawal SEBI Registration Number: INM000011112	<b>Jefferies India Private Limited</b> Level 16, Express Towers, Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, India Tel: +91 22 4356 6000 E-mail: vishalmm.ipo@jefferies.com Investor grievance e-mail: jipl.grievance@jefferies.com Website: www.jefferies.com Contact person: Suhani Bhareja SEBI registration no.: INM000011443	<b>J.P. Morgan India Private Limited</b> J.P. Morgan Tower, Off. C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098, Maharashtra, India Tel: +91 22 6157 3000 E-mail: vishal_mega_mart_ipo@jpmorgan.com Investor grievance email: investorsmb.jpmpl@jpmorgan.com Website: https://indiaipo.jpmorgan.com/india Contact person: Himanshi Arora / Rishank Chheda SEBI Registration Number: INM000002970	<b>Morgan Stanley India Company Private Limited</b> 18F, Tower 2 One World Centre, Plot 841, Jupiter Textile Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013, Maharashtra, India Tel: +91 22 6118 1000 E-mail: vishalmegamartipo@morganstanley.com Investor grievance e-mail: investors_india@morganstanley.com Website: www.morganstanley.com/india Contact person: Salyam Singhal SEBI registration no.: INM000011203
<b>REGISTRAR TO THE OFFER</b> 					
<b>KFin Technologies Limited</b> Selenium, Tower B, Plot No-31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi - 500 032, Telangana, India Tel: +91 1800 309 4001/ +91 40 6716 2222; E-mail: vmm.ipo@kfintech.com; Investor grievance email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna; SEBI Registration No.: INR000000221					

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the UDRHP-I.

Place: Gurugram, Haryana  
Date: October 17, 2024

VISHAL MEGA MART LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares ("Offer") and has filed an updated draft red herring prospectus dated October 17, 2024 ("UDRHP-I") with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE, the "Stock Exchanges"). The UDRHP-I will be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.aboutvishal.com; and on the website of the BRLMs, i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, ICICI Securities Limited, Intensive Fiscal Services Private Limited, Jefferies India Private Limited, J.P. Morgan India Private Limited and Morgan Stanley India Company Private Limited at https://investmentbank.kotak.com, www.icicisecurities.com, www.intensivesfiscal.com, www.jefferies.com, https://indiaipo.jpmorgan.com/ and www.morganstanley.com/india respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" beginning on page 22 of the UDRHP-I. Potential investors should not rely on the UDRHP-I filed with SEBI and the Stock Exchanges, and wait for the Red Herring Prospectus to be filed in relation to the Offer for making any investment decision.

This public announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This public announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) within the United States solely to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) pursuant to Section 4(a) of the U.S. Securities Act, and (b) outside the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction under those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

For VISHAL MEGA MART LIMITED  
On behalf of the Board of Directors

Sd/-  
Rahul Luthra  
Company Secretary and Compliance Officer